



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 1020 राँची, शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

29 नवम्बर, 2019

संख्या- 13/न्या० नि० सं०-29/2015 का० 9526-- सुश्री एन्जलीना जॉन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर, जो झारखण्ड न्यायिक सेवा में चयन के समय एल०एल०एम० की उपाधि धारण करती थीं, को विभागीय संकल्प सं० 4328 दिनांक 24.05.2016 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के साथ नियुक्ति की तिथि 30.07.2015 के बाद पड़ने वाली पहली जुलाई अर्थात् 01.07.2016 के प्रभाव से 3 अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

- उक्त वेतनवृद्धि पर कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा ।
- यह राशि पूरे सेवाकाल में स्थिर रहेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रेम कुमार राय,
सरकार के अवर सचिव।